GRM OVERSEAS LIMITED



Date: 27th September, 2021

Department of Corporate Services, Bombay Stock Exchange Limited, Ground Floor, P. J. Towers, Dalal Street Fort, Mumbai- 400001

(Scrip Code: 531449)

Sub: Newspaper Advertisement- Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of News Papers- Jansatta (Hindi Newspaper) and Financial Express (English News paper) dated 26.09.2021 in which Notice of Dispatch of Postal Ballot Notice is Published and a copy of the same is available on the website of company i.e. www. Grmrice.com

This is for yours information and record.

For GRM Overseas Limited

Balveer Singh Company Secretary M. No. 59007











Registered Office 128, First Floor, Shiva Market Pitampura, Delhi 110034, India. • +91-11-4733 0330 **Corporate Office**

8 K.M. Stone, Gohana-Rohtak Road Village Naultha, Panipat 132145 Haryana, India • +91-972964 7000/8000

- Gohana Road (Panipat), Haryana
- Naultha (Panipat), Haryana
- · Gandhidham, Gujarat

FE SUNDAY

CAN FIN HOMES LTD.

DP-11. Ist Floor, Local, Shopping Complex, Above Canara Bank. Pitampura, Delhi-110 034 Ph.: 011-41761717 Mob.: 7625079150 Email: pitampura@canfinhomes.com

(See Rule 8 (1)) POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers under the said Act and Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated **07.04.2021** calling upon the Borrowers- (1) Mrs. Mohd Ziauddin S/o Mr. Mehboob (2) Mrs. Nazmeen Siddiqui W/o Mr. Mohd Ziauddin presently residing at C-187/16 (Old No. C-185/14) Out of Khasra No 147 Ghonda Chauhan Banger Shahdara Delhi - 110053 and to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 15,77,139/- (Rupees Fifteen Lakh Seventy Seven Thousand One Hundred Thirty Nine only) and interest and other incidental charges from 07/04/2021 to till date of final payment within 60 days from the date of receipt of the said notice.

and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on this 20.09.2021.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Can Fin Homes Ltd. (CFHL) for an amount of Rs. 15, 77,139/- (Rupees Fifteen Lakh Seventy Seven Thousand One Hundred Thirty Nine only) and further interest, and other incidental

CHAUHAN BANGER, NEAR KALYAN CINEMA, GONDA, SHAHDARA, DELHI-110053 The boundaries of the property are as under:

OTHER PROPERTY

Place: Delhi.



KOTAK MAHINDRA BANK LTD. egistered Office: 27-BKC, C-27, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai- 400 051 ranch Office: 7th Floor, Ambadeep Building, 14 K.G. Marg, New Delhi

Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 23rd April 2021 for Loan Account No.-IHL110642 calling upon the borrower/s / parties Mr. Sunil Kumar (Borrower/Mortgager) & Mr. Swaraj Singh (Co-borrower) to repay the amount mentioned in the notice being Rs.3,88,589.02/- (Rupees Three Lac Eighty Eight Thousand Five Hundred Eighty Nine and Two Paisa Only) within 60 days from the

The aforementioned Borrower/s / Guarantor/s /Mortgagor having failed to repay the amount, notice is powers conferred on him / her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this 23-SEPTEMBER-2021.

The borrower's attention is invited to provisions of sub -section (8) of section 13 of the Act, in respec

The Borrower/s / Guarantor/s /Mortgagor mentioned hereinabove in particular and the public i general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED, for an amount Rs.3.88.589.02/-(Rupees Three Lac Eighty Eight Thousand Five Hundred Eighty Nine and Two Paisa Only) as expenses, costs and charges etc. from 22nd April" 2021.

All that part and parcel of the Property consisting of:-

*G-1 (M.I.G) Back Side, Plot No. 536, Ground Floor, Shalimar Garden Extension-I, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201005" Area Measuring 700Sq. Ft. i.e. 65.02 Sq. Mtrs., Bounded as below: North: Road 40 Ft wide, East: Plot No. 536-A, South: Service Lane, West: Plot No. 535

Date: 23-09-2021 Place:New Delhi

GRM OVERSEAS LIMITED CIN: L74899DL1995PLC064007

Regd Office: 128, First Floor, Shiva Market Pitampura North Delhi- 110034 Website: www.grmrice.com | Email id: grmrice1@gmail.com Tel No: 011-47330330 | Fax No: 011-(0180 - 2653673)

POSTAL BALLOT NOTICE

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 110 and otherapplicable provisions, if any, of Companies Act, 2013 read with Rule 22 of Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended from time to time read with the latest General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 and the rules made thereunder on account of the threat posed by COVID-19 issued by the Ministry of Corporate Affairs('MCA Circulars') and pursuant to the other applicable laws and regulations, the Company shall seek approval of its members by way of Postal Ballot in respect of the Special business set out in the Postal Ballot Notice dated September 23, 2021 (Postal Ballot Notice).

In terms of MCA Circulars and on account of the threat posed by COVID-19 pandemic, the Company will send the Postal Ballot notice in electronic form only and the communication of the assent or the dissent of the members will also take place only through the remote e-

The Company has on September 25, 2021 completed dispatching of Postal Ballot Notice by email only to the members whose names appear in the Register of members/List of Beneficial Owners as received from NSDL and CDSL and whose email addresses are available with the Company as on (Friday), September 24, 2021 ('cut-off date').

The Company seeks consent of the members by way of Ordinary Resolution on the matters mentioned in the Postal Ballot Notice through remote e-voting only. A copy of Postal Ballot Notice is also available on the website of the company www.grmrice.com and on the website(s) of the stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, where the

company's shares are listed and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com

Please note that in compliance with the provisions of section 108, 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with (i) Rule 20 and Rule 22 of the rules as amended (iii) Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and (iii) MCA circulars, the company has provided only the remote evoting facility to its Members, to enable them to cast their votes electronically instead of submitting the Postal Ballot form. The company has engaged the services of NSDL for providing remote e-voting facilities to the Members, enabling them to cast their vote electronically and in a secure manner.

The members, who are holding shares in physical/electronic form and whose email addresses are not registered, shall register their email-id with the Registrar and Transfer Agent of the Company/their respective Depository participants. The members holding shares in physical form are requested to register their email addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held with the Company along with selfattested scanned copy of the PAN Card, Aadhaar Card or any other Govt. document in support of the address poof of the member as registered with the Company for receiving the Postal Ballot Notice by email to Company at Investor.grm@gmail.com. Members holding shares in demat form can update their email address with the Depository Participants. The notice of the Postal Ballot shall contain all the instructions regarding the manner in which the members can cast their vote through remote e-voting.

M/s Devesh Arora and Associates, Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner. The remote e-voting period shall commence on September 26, 2021 at 09:00 A.M. and end on October 25, 2021 at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M.

If any Member casts his vote by remote e-voting after 5:00 P.M. on October 25, 2021, then that remote e-voting will not be considered as valid vote and will be treated as if reply from such member has not been received.

The result of the Postal Ballot will be declared on or before Tuesday, October 26, 2021. The aforesaid result along with the Scrutinizer's report would be displayed on the Company's website www.grmrice.com and on the website of NSDL immediately after the result is declared. The Company will simultaneously forward the results to the Stock Exchanges

where the shares of the Company are listed Any query or grievance connected with the e-voting can be addressed to the NSDL by email at evoting@nsdl.co.in or call on.: 1800 22 44 30 or 1800 1020 990. Members may also write to the Company at Investor.grm@gmail.com By order of the Board

> Balveer Singh Company Secretary)

FOR GRM OVERSEAS LIMITED

₹700-crore shares frozen after raids on Karvy Stock Broking CMD: ED

ENFORCEMENT **DIRECTORATE** (ED) on Saturday said it has frozen shares worth ₹700 crore after raids against Karvy

CMD C Parthasarathy and others as part of a money laundering investigation against them.



PUBLIC NOTICE tice is hereby given that Share Certificate no.14123 for 200 Equity Shares of Rs. 2/- (Rupees two only) each bearing Distinctive Number from 1603506 to 1603605 & 88455166 to 88455265 of DCM Shriram Ltd. New Delhi, Registered in the name of Sri Ram Juneja have been lost and Ajay Juneja has applied to the company to ssue Duplicate Share Certificate. Any person who has any daim in respect of the said Share Certificate should R/o 310, Village Ghevra, Delhi, lodge such claim with the company at ts registered office at 5th floor, Kanchanjunga Building, 18 Barakhamba Road, New Delhi-110001, within 15 days f the publication of this notice, after which no daim will be entertained and he company will proceed to issue duplicate share certificate.

PUBLIC NOTICE O WHOMSOEVER IT MAY CONCERN This is to inform the General Public that following share certificate of Thirumalai Chemicals Ltd. having its Registered office at Plot No. 101/102, Thirumalai House, Road no.39, Scheme no.6, Sion Matunga Estate, Sion East, Mumbai, Maharashtra-400022, registered in the name of following shareholder have een lost by them

Nos.3109, Distinctive Nos. 2210621 to 2211040, No. of Shares-420. The Public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any

Name of the shareholder- Siri Ram

Juneja, Folio No.S007420, Certificate

ty person who has any claim in respect of the said share certificate should lodge such claim with the company or its RTA Linkintime India Pvt. Ltd. Add: C-101 247 Park, L.B.S Marg, Vikhroli (West), Mumbai, Maharashtra-400083 within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the company shall proceed to issue duplicate share certificates.

Date: 25/09/2021 Siri Ram Juneja Place: New Delhi

Stock Broking (KSBL)



from my clients named hereunder that Sh lishipreet Singh, Sh. Gaganpreet Singh both Slo Sh. Manmohan Singh and Smt. Kawai Sachdeva W/o Late Harpreet Singh, all R/o 10/84, West Punjabi Bagh, New Delhi, have agreed to sell the Entire Property of Khasra no 23/5 (4-16), 24/1 (4-16) and 24/2/1 (2-5), Village Pandwala Khurd, New Delhi to my clients Mrs. Anju Agarwal W/o Sh. Satisl Kumar Agarwal R/o A-72, Prashant Vihar, Delhi and Mrs. Kavita Wo Surender Rana

All persons claiming an interest in the said property or any part thereof by way of sale gift, lease, inheritance, exchange, mortgage, charge, lien, trust, possession, easement, attachment or otherwise howsoever are hereby required to may write/contact with above named person at mob.no. 9811024009 within 7 days from the date hereof, failing which the said sale will be completed, without any reference to such claim and the same, any, shall be considered as waived. Kamal Singh, Advocate Ch.no.512, Dist. Court Rohini, Delhi-85

'IMPORTANT'' Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Canadians detained in China freed after Huawei **CFO** resolves US charges

ASSOCIATED PRESS New York, September 25

TWO CANADIANS DETAINED in China on spying charges were released from prison and flown out of the country on Friday, PM Justin Trudeau said, just after a top executive of Chinese communications giant Huawei Technologies reached a deal with the US Justice Department over fraud charges and flew to China.

The frenetic chain of events involving the global powers brought an abrupt end to legal and geopolitical wrangling that for the past three vears has roiled relations between Washington, Beijing and Ottawa.

The three-way deal enabled China and Canada to each bring home their own detained citizens while the US wrapped up a criminal case against a prominent tech executive that for months had been mired in an extradition fight. The first activity came Friday

afternoon when Meng Wanzhou, 49, Huawei's chief finance officer and the daughter of the company's founder, reached an agreement with federal prosecutors that called for fraud charges against her to be dismissed next year and allowed for her to return to China immediately. As part of the deal, known as a

she accepted responsibility for misrepresenting the company's business dealings in Iran. About an hour after Meng's plane

deferred prosecution agreement,

left Canada for China, Trudeau revealed

that Canadians Michael Kovrig and Michael Spavor were also on their way home.

The men were arrested in China in December 2018, shortly after Canada arrested

Meng on a US extradition request. Many



Huawei CFO Meng Wanzhou bows after reading a statement outside BC Supreme Court in Vancouver on Friday

countries labelled China's action "hostage politics." "These two men have been through an unbelievably difficult ordeal. For the past 1,000 days, they have shown strength, perseverance and grace and we are all inspired by that,"Trudeau said.

News of Meng's pending return was a top item on the Chinese internet and on state broadcaster CCTV's midday news report, with no mention made of the release of Kovrig and Spavor.

Foreign ministry spokesperson Zhao Lijian reposted on social media a report on Meng having left Canada, adding "Welcome home." Video was also circulated online of Meng speaking at Vancouver International Airport, saying: "Thank you motherland, thank you to the people of the motherland. You have been my greatest pillar of support." The deal was reached as President Joe Biden and Chinese counterpart Xi Jinping have sought to tamp down signs of public tension—even as the world's two dominant economies are at odds on issues as diverse as cybersecurity, climate change, human rights and trade and tariffs.

Biden said in an address before the UN General Assembly earlier this week that he had no intention of starting a "new Cold War," while Xi told world leaders that disputes among countries "need to be handled through dialogue and cooperation.""The US Government stands with the international community in welcoming the decision by People's Republic of China authorities to release Canadian citizens Michael Spavor and Michael Kovrig after more than two-and-a-half years of arbitrary detention. We are pleased that they are returning home to Canada," US secretary of state Antony Blinken said in a statement.

As part of the deal with Meng, which was disclosed in federal court

> Justice Department agreed to dismiss the fraud charges against her in December 2022—exactly four years after her arrest-provided that she complies with certain conditions, including not contesting any of the govern-

in Brooklyn, the

The Justice Department also agreed to drop its request that Meng be extradited to the US, which she had vigorously challenged, ending a process that prosecutors said could have persisted for

बैंक ऑफ़ इंडिया BOI POSSESSION NOTICE (for Immovable property) APPENDIX-IV [See rule-8(1)]

Fax: 011-2439 2100; Tel.Nos. 011-2436 3700, 2436 4800 Email: cgocomplex.newdelhi@bankofindia.co.in

CGO COMPLEX BRANCH.

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the Bank of India under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 09.07.2021 (13(2) notice date) calling upon the borrower Mr. Pradeep Kumar Kaushik, Mrs. Sonia Kaushik and Mr. Rajeev Kaushik to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 37,08,297/- (Rupees Thirty Seven Lakhs Eight Thousand Two Hundred Ninety Seven) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and

the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this the 20th day of September of the year 2021; The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with he property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of

ndia for an amount Rs. 37,08,297/- and interest thereon. The borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of the section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY All that part and parcel of the property consisting of Plot No. RZ-2520, First & Second Floor

(with roof rights) Ranjit Nagar, New Delhi

Bounded; On the North by: Plot No. 2722/13,

On the East by: Plot No. 2720/13, On the West by: Gali

Date: 20.09.2021

Place: New Delhi

(Ashutosh Mishra) Asst. General Manage) Authorised Officer (Bank of India)

Branch Office: 6th Floor, Synergy Tower, 13/1, Sector-62, Noida-201301(U.P.) Registered Office: -11th Floor, The Ruby, Plot No-29, Ruby Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Dadar West, Mumbai - 400028

RELIANCE HOME FINANCE LIMITED

the charge of Reliance Home Finance Ltd.

HOME

FINANCE POSSESSION NOTICE

Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with

Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued Demand Notices upon the Borrowers/Co-borrowers mentioned below

(As per Rule 8(2) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002) Whereas the undersigned being the Authorized Officer of Reliance Home Finance Ltd. under the Securitization, Reconstruction of

On the South by: Road/Entry

to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower/Co-borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Co-borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The Borrower/Co-borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to

Sr. No.	Name of Borrower/ Co-borrower	Description of Property	Notices Date of Possession	Amount in Demand Notice (Rs.)
1.	1.) Abhinav Upadhayay 2.) Pratikasha Thakur	All the piece and parcel of property Bearing Flat No. G-1603, Measuring 1430 Sq Ft (super Area), 16th Floor, Tower G, French Apartment, Plot No. GH-07B, Sector 16B, Greater Noida West, Noida, Uttar Pradesh-201301	02-07-2021	Rs.40,61,481.07 (Rupees Forty Lakhs Sixty One Thousand Four Hundred Eighty One and Seven Paise Only) as on 24th - Jun-2021 for loan account number RHHLDEL000038750.
2.	1.) Mohammed Islam 2.) Kulsum Fatima 3.) Sartaj Khan	All the piece and parcel of property bearing Unit No B-5003, Second Floor, Having Super Area Measuring 1195 Sq Ft, Spring View Floors, Crescent Parc, Situated In Village Shahpur Bamheta, NH-24, New Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201014	02-07-2021	Rs. 20,27,152/- (Rupees Twenty Lakhs Twenty Seven Thousand One Hundred and Fifty Two Only) as on 24th -Jun-2021 for loan account number RHHLDEL000037708.

The Borrower/Co-borrowers/Mortgagor(s) attention is invited to the provision of Section 13(8) of the SARFAESI Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Place: Noida/ Ghaziabad

Date: 24.09.2021

Authorized Officer Reliance Home Finance Ltd.

Possession

Notice



POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTIES (Under Rule 8(1) Security Interest Enforcement Rule 2002) Whereas the Authorised Officer of Union Bank of India under the Securitisation and Reconstruction

कार्पारेशन Corporation

of Financial Assets and Enforcenment Security Interest Act 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notices calling upon the borrower(s) mentioned below to repay the amount mentioned in the demand notices within 60 days from the date of receipt of the said notices. The borrower(s) having failed to repay the amounts, notice is hereby given to borrower(s) and the public in general

that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on the dates mentioned below. The borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Union Bank of India for the amount mentioned below. The borrower's attention is invited to the provision of Sub Section 13(8) of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets. Dt. of Demand Notice & Amount ession Name & Address of the

Branch: Shikohabad, Firozabad

	98	- 5
	Bra	inc
Borrower- M/s Laxmi Agro Farm (Prop.	Dt. 12/04/2021	7
Mr. Atulkant Pachauri) Add Hazratpur Gram Kheriya Tundla, Firozabad, Guarantor- 1. Mr. Vinita Pachauri 2. Shri Atulkant Pachauri 3. Mr. Harikant Pachauri, Add H. No. 112. Gali No. 2. Moh. Kishan	as on 31.03.2021 + intt. & other	700000

Borrower- Dinesh Kumar S/o Dt. 06/04/2021

₹ 12.71.885.46

+ intt. & other

expenses

ch: Firozabad All that Part and Parcel of the Property consisting of H. No. 112, Gali No. 2, Moh. Kishan Nagar, Mauza Shukmalpur, Nizamabad, Distt. Firozabad, Area- 55.34 Sq. Mtr., Property in the name of Mrs. Vinita Pachauri W/o Late Suresh Chand Pachauri 2. Mr. Atulkant Pachauri 3. Mr. Hari Kant Pachauri Both S/o Late Suresh Chand Pachauri, Bounded as: East- Rasta & Gali 12 Ft. wide.

Details of the Property

All that Part and Parcel of House No. 707b/1, Sagar Enclave Colony,

Ward No. 9 (Previously at Mauza Mohammadabad Urf Shikohabad),

Shikohabad, Distt. Firozabad, Area- 124.30 Sq. Mtr., Property in the

name of Smt. Savitri W/o Dinesh Kumar, Bounded as: East- Rasta,

West- Rasta, North- House of Umesh Chand, South- House of Harendra.

Gali No. 8, Moh. Hajipura (Mussarat Nagar) Distt. Firozabad, Area-55.74 Sq. Mtr., Property in the name of Mr. Samiuddin S/o Late Allauddin, Bounded as: East- Property of Mohd. Taqi, Noor Mohammad & Malig Mohammad, West- Remaining Property of Bisal Ahmed, North- Gali/Rasta, South- Property of Abdul Wahid.

expenses West- Rasta 15 Ft. wide. North- Plot of Ram Sakhi. South-Nagar Firozabad. Remaining Plot of Seller. Borrower- Shri Samiuddin S/o Late Dt. 12/04/2021 All that Part and Parcel of the Property consisting of H. No. 234/1 Shri Alauddin, Add.- H. No. 234/1 ₹ 9.80.590.20 Gali No. 8 Moh. Hajipura (Mursar as on Nagar) Guarantor- Mr. Mohd. Raif 31.03.2021

Date: 24.09.2021 financialexp.epapr.in

Can Fin Homes Ltd CIN:L85110KA198PLC008699

The undersigned being the Authorised Officer of Can Fin Homes Ltd. under the

The Borrowers having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the borrowers

The Borrower in particular and the public in General is hereby cautioned not to deal with the

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that piece and parcel of the residential Property bearing C-187/16 GALI NO.

North: ROAD 20 FT. East: OTHER PROPERTY, South: OTHER PROPERTY, West

Date: 25.09.2021

V SARATH CHANDRAN Authorized Officer, Can Fin Homes Ltd.

Appendix IV [see Rule 8(1)] Possession Notice (for immovable Properties) Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the Kotak Mahindra Bank Ltd. (earlie known as ING Vysya Bank Ltd., which has been amalgamated with Kotak Mahindra Bank Limited pursuant to the Order issued by Reserve Bank of India under Sub-section 4 of Section 44A of Banking Regulations Act, 1949 sanctioning the scheme of amalgamation of ING Vysya Bank Limited with Kotak Mahindra Bank Limited effective from April 1' 2015 hereinafter referred to as "Bank") a banking company within the meaning of the Banking Regulation Act, 1949 having it's Registered Office at 27BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051 and branch office at 7th Floor, Ambadeep Building, 14 K.G. Marg, New Delhi under Securitisation and Reconstruction of inancial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("SARFAESI Act") and in exercise of the powers conferred under sections 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement

hereby given to the Borrower's / Guarantor's /Mortgagor and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of

Description of the Immovable Properties:

(Authorised Officer) Kotak Mahindra Bank Ltd.

केनरा बैंक Canara Bank 🚓

📻 सिडिकेट Syndicate

CIRCLE OFFICE: VIPIN KHAND,

intt. and other exp.

from 01.01.2018

A/c No 8330296000002.

IFSC Code: CNRB0008330

Rs. 1661044.00

intt. and other exp

from 01.07.2019

A/c No.8330296000002

IFSC Code: CNRB0008330

Rs. 533145.00

intt, and other exp.

from 01.06.2020

A/c No.8330296000002

IFSC Code: CNRB0008330

Rs. 1097533.00

intt. and other exp

from 01.06.2020

A/c No.8330296000002

IFSC Code: CNRB0008330

Rs. 1137970.14

intt. and other exp

from 01.08.2018

A/c No.8330296000002

IFSC Code: CNRB0008330

intt. and other exp.

from 24.01.2018

A/c No. 8330296000002

IFSC Code: CNRB0008330

Rs. 1505492.00

intt, and other exp

from 01.12.2018

A/c No. 8330296000002

IFSC Code: CNRB0008330

Rs. 762828.00

intt, and other exp.

from 07.06.2020

A/c No.8330296000002

IFSC Code: CNRB0008330

Rs. 1847989.00

+ intt. and other exp.

from 01.07.2016

A/c No.8330296000002.

IFSC Code:CNRB0008330

Rs. 153863.88

+ intt. and other exp.

from 21.01.2019

A/c No.8330296000002

IFSC Code: CNRB0008330

E-AUCTION GOMTI NAGAR, LUCKNOW-226010 SALE NOTICE

Rs. 628000/-

Rs. 62800/-

Rs. 2609000/-

Rs. 260900/-

Rs. 461000/-

Rs. 46100/-

Rs. 1138000/-

Rs. 113800/-

Rs. 1397000/-

Rs. 139700/-

Rs. 1101000/-

Rs. 110100/-

Rs. 2899000/-

Rs. 289900/-

Rs. 440000/-

Rs. 44000/-

Rs. 1700300/-

Rs. 170030/-

Rs. 268000/-

Rs. 26800/-

Greenpark.

Bareilly Branch

Mobile No.0581-

2520044.

cb4880@canarabank

com

Bareilly Branch

Ph. 0581-2520044,

b4880@canarabank.co

Manager Canara Bank

Greenpark,

Bareilly Branch Mobile No.0581-

2520044.

cb4880@canarabank

com

Greenpark,

Bareilly Branch

Mobile No.0581-

2520044,

cb4880@canarabank

com

Manager Canara Bank

Nainital Road, Bareill

Branch

Mobile No.

9412247228.

9837988000

cb18635@canarabank

Shahjahanpur Branch

Ph 05842-222255,

mobile no. 8173007785

mail id:

cb2837@canarabank

Manager Canara Bank

Shahjahanpur Branci

Phone no 05842-

222255,

nobile no. 8173007785

mail id:

cb2837@canarabank

com

Manager Canara Bank

Jangraulipul Distt. Pilibhit Branch

bile No.8173007828

7738522164

mail id:

cb9177@canarabank

com

Manager Canara Bank

Bilaspur Distt, Rampu

Branch

Mobile No. 9412718845

mail id:

cb18678@canarabank

Manager Canara Bank

Krimcha Distt.Rampu

Branch Mobile

No.8191904048.

6360547919

mail id:

cb2182@canarabank

Manager Canara Bank

Lakhimpur Branch

Mobile No.9415550148

8218761953

mail id:

cb2910@canarabank

Symbolic

obile no. 817300781

Manager Canara Bank

obile no. 817300781

obile no. 8173007812

Symbolic Manager Canara Bank Greenpark,

obile no. 817300781:

E- AUCTION SALE NOTICE OF SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ WITH PROVISO TO RULE 8(6) OF THE SECURITY INTEREST

Date: 23.09.2021

Place: New Delhi

(ENFORCEMENT) RULES, 2002 RULES 8(6) & (9) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002 LAST DATE OF RECEIPT OF EMD: 27.10.2021 UPTO 5:00PM

DATE AND TIME OF E-AUCTION: 28.10.2021 11:30AM TO 12:30PM Notice is hereby given to the public in general ad in particular to the Borrower (s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged charged to the Secured Creditor, the Symbolic / Physical (Strike whichever is not applicable) possession of which has taken by the Authorised Officer of the Canara Bank, will be sold "As

is where is", "As is what is " and " whatever there is " basis on 28.10.2021, with auto extension of five minutes till sale is completed.

Sr. No.	Haille a Hadicos of	Brief Description of Property / ies	Total Liabilities	Reserve Price	Nature of possession	Person to contact Mobile No.
	Borrowers/Guarantors /Mortgagor		Earnest Money Deposit Account	Earnest money		
100	A M/s WELL DONE BATTERY AND INVESTOR (Beautiful Musice	Communical Droposty (Chan) situated at	Detals	Deposit (EMD)		Managar Canara Bank
	1.M/s WELLDONE BATTERY AND INVERTOR (Prop. Sri Mushfiq Ahmad S/o Mohd. Jumerati), Near Good Marriage Hall, Mohalla Soofi Tola, Old City, BAREILLY 2.Sri Mushfiq Ahmad S/o Sri Mohd. Jumerati, H.N.489, Mohalla	Mohalla Soofi Tola,Old City, Bareilly in the name of Sri Anees Ahmad,Sri Mushfiq Ahmad & Sri Mohd. Alam all S/o Sri Mohd,Jumerati. Area 6.92 Sqm Bounded by: East: Rasta, West: House of Allauddin , North Shop of Soeb Ansari	+ intt. and other exp.	Rs. 1038000/- Rs. 103800/-	Symbolic	Manager Canara Bank, Greenpark, Bareilly Branch Mobile No.0581- 2520044, mobile no. 8173007812 cb4880@canarabank. com
	Soofi Tola, Old City, BAREILLY 3. Sri Anees Ahmad S/o Sri Mohd. Jumerati, H.N.489, Mohalla Soofi Tola, Old City, BAREILLY 4. Sri Mohd.Alam S/o Sri Mohd. Jumerati, H.N.489, Mohalla Soofi		A/c No 8330296000002 IFSC Code: CNRB0008330			
(2)	1.M/s S.B.B.CORPORATION (Prop. Smt. Rajrani Gupta W/o Sri	Residential Plot situated at Khasra no.126	Rs. 766395.00	Rs 628000/-		Manager Canara Bank,

of Sri Mukesh, West: Property of Shri Shafio

Khan & Ashfaq Khan, North: Property of Sharif

Shafiq Khan & Ashfaq Khan, South: Rasta

Residential House property situated at Part

of Khasra no74M and 75M Satiput Road

Bareilly in the name of Mohd. Yusuf S/o

Mohd Yaseen Area 83.61 Sqm. Bounded

Sadar Shahjahanpur in the name of Sri

Khan, Area 107.06 Sqm Bounded: East

Buzurg (Near Durga Enclave

Agnihotri W/o Sri Sanjay Agnihotri , Area

133.78 Sqm. Bounded ; East: Rasta

West: Land of Sadiq, North: House of

Village Jangraulipul Distt. Pilibhit in the

name of Sri Zikran Hussain S/o Shafat

Hussain Area 90.46 Sqm. Bounded: East

Rasta, West: Land Sri Pyare Lal, North: Plot

Residential House property situated at Mohalla

Tanda Jadeed Behind Gurudwara (Govino

Colony, Somvar Ka Bazar) Bilaspur Distt

Rampur in the name of Sri Roop Ram Sharma

& Sri Sompal Sharma Both S/o Sri Ram Ratar

Sharma Area 87.00 Sqm. Bounded : East

Rasta, West: Rasta, North: Property of

Chandra Bhan Jain, South: Property of Sarjee

Vill.Ladpur Post Loha, Milak Distt Rampur in

the name of Sri Chhatrapal Singh S/o Sr

Tulsi Ram Area 63.35 Sqm. Bounded

East: Rasta, West: House of Sohan Lal

North: House of Ramautar, South: House

Plot of Seller, South : Plot of Seller

Lateef Ahmad, South : Rasta.

of Seller, South : Plot of Seller

Kaur (Now House)

of Ramautar

hen property of Shri Sarju

(2) 1.M/s S.B.B.CORPORATION (Prop. Smt. Rajrani Gupta W/o Sri Residential Plot situated at Khasra no.126 Gopal Gupta) Vill. Andharpura Rajau Paraspur, Tehsil Faridpur, Village Hirdayapur urf Andharpur, Teshil Faridour Distt. Bareilly in the name of Smt Smt.Rajrani Gupta W/o Sri Gopal Gupta H.N.29, Utkarsh Part-Rajrani Gupta W/o Sri Gopal Gupta. 2, Mahanagar, BAREILLY Area 140.00 Sqm Bounded by: East: Ag 3. Sri Gopal Gupta S/o Sri Chhote, H.N. 29.Utkarsh Parteqp factory of Gopal Gupta, West: Land o 2, Mahanagar, BAREILLY Vinod Kumar, North: Rasta, South: Land of

M/s BAREILLY CEMENT BRICKS UDYOG (Prop. Smt. House property situated at Village Shavana Begum) Village Mohanpur, BAREILLY Mohanpur, Bareilly in the name of Smt 2. Smt. Shavana Begum W/o Mohd.Saleem 144. Nakatiya Shavana Begum W/o Mohd. Saleem . Area 167.23 Sam. Bounded by: East: Property Mohanpur, PAC-DSO, BAREILLY of Seller, West: House of Hafeez, North Property of Seller, South : Rasta 1.M/s S.M.HARBAL BUITY PRODUCTS (Prop. Smt. Savitri Shop situated at Patel Nagar, Near Balaj

Mishra) Patel Nagar, Near Balaji Mandir , BAREILLY Mandir, Bareilly in the name of Smt. Savitr 2.Smt. Savitri Mishra W/o Sri Shyam Baboo , Patel Nagar, Nea Mishra W/o Sri Shyam Baboo. Area 7.43 Balaji Mandir BAREILLY Sgm. Bounded by: East: Shop Raunak Medical Hall, West: Shop of Vendor and others, North : Passage there after Arazi Shobha Ram, South: House of Vendor

.M/s SUPER PROVISIONAL STORE (Prop. Smt. Gulshan Fatma) House property situated at H.No.1, Mohanpur Nakitiya Thana, Cantt.Bareilly, Bareilly in the 144, Mohanpur (Nakatiya), BAREILLY name of Smt. Gulshan Fatma W/o Smt. Gulshan Fatma W/o Mohd. Mohsin, H. No.1, Mohanpur, Mohd.Mohsin Nakatiya Thana Cantt. Bareilly, BAREILLY Area 189.70 Sqm. Bounded by: East: House 3.Mohd Mohsin S/o Mohd, Salim, H. No 1 ,Mohanpur, Nakatiya

Thana Cantt. Bareilly BAREILLY 1. Mohd. Yusuf S/o Mohd. Yaseen, H.N.-152, Jagatpur Old City

2. Sri Shan Akhtar S/o Mohd. Yaseen Khan, H.N.-152, Jagatpur Mohalla Nawada Shekhan (Gulzar Nagar). Old City, BAREILLY Mohd.Yusuf S/o Mohd.Yaseen, Part of Khasra no.74M and 75M : East: Plot of Suraj Pal and then house of

Mohalla Nawada Shekhan (Gulzar Nagar) Satipur Road, Bareilly Beni Ram, West: Plot of Suraj Pal, North Plot of Dal Chand & Ram Lal, South : Road 1.Sri Asim Hussain Khan S/o Sri Jameel Hussain Khan. R/o House property situated at Vill. Lauka Tehsil Lodhipur, Shahjahanpur 2.Sri Vipin Kumar Dwivedi S/o Sri Suresh Chandra Dwivedi. Asim Hussain Khan S/o Sri Jameel Hussair Mohalla Kunvarpur Bashish, Shahbad, Shahiahanpur

Rasta Kachha, West: Rasta Kachha, North 1. Sri Sanjay Agnihotri S/o Sri Putti Lal, House no.10, Mohalla House property situated at Vill. Hathoda Mara, Bareilly More, Shahjahanpur 2. Smt. Sneh Agnihotri W/o Sri Sanjay Agnihotri House no. 10. Shahjahanpur in the name of Smt Sneh Mohalla Mara, Bareilly More, Shahjahanpur

3.Sri Shiv Sagar Lal S/o Sri Nand Lal, House no.168, Mohalla

1.Sri Zikran Hussain S/o Shafat Hussain, H.N.-112, Jangraulipul Residential House property situated at Mohd.Rashid S/o Sardar Hussain Vill. Chidiyadah, PILIBHIT

Bijlipur Sadar, Shahjahanpur

LAKHIMPUR KHERI

LAKHIMPUR KHERI

eauction@ccsl.co.in

1.M/s SHARMA TRADERS (Prop.Sri Roop Ram Sharma) Rampur Road Near SBI SME Branch Bilaspur Distt.Rampur 2.Sri Roop Ram Sharma S/o Ram Ratan Sharma Mohalla Tanda Zadeed Bilaspur Distt.Rampur

Sri Som Pal Sharma S/o Ram Ratan Sharma, Somvar Ka Bazar Govind Colony Bilaspur Dist Rampur 4.Sri Yogesh Kumar, H.N. 413, Mohalla Shirimiyan Bilaspur ,Distt 1.Sri Chhatrapal Singh S/o Sri Tulsi Ram, Vill. Ladpur, Post Residential House property situated a

Loha Milak , Distt Rampur

 M/s YASH AGENCIES (Prop. Mohd.Siddig S/o Gulam Waris) Commercial building property situated at Mohalla-Shamsher Nagar, Hidayat Nagar, LAKHIMPUR KHERI Mohd.Siddig S/o Sri Gulam Waris VIII.& Post Mahewagani. Mohalla Paschimi Dixitina Gola Gokaran Nath, South: Rasta

Gata No.100, Vill. Hajipurva Lakhimpur ir the name of Mohd Siddig S/o Gulam Waris Area 167.634 Sqm. Bounded : East: Plo 3. Sri Ashish Kumar Awasthi S/o Late Sri Shambhu Dayal no.14, West: Plot no.16, North: Arazi Other

Manager, above mentioned Branch Canara Bank, during office hours on any working day.

Rs. 1668784.00 Rs. 1210000/- intt. and other exp. from 01.03.2017 Rs. 121000/-A/c No.8330296000002, IFSC Code:CNRB0008330 For detailed terms and conditions of sale please refer the link" E-Auction" provided in Canara Bank's website (www.canarabank.com) or may contact E-Auction service provider M/s CanBank Computer Services Ltd., Website: www.ccsl.co.in, Mobile No 9832952602 / 080- 23469665, email id

Authorised Officer, Canara Bank

Symbolic

Date: 26.09.2021

H. No. 198/3, Mohammad Ganj Gali No. 3, Firozabad.

Khan S/o Irfan Khan Phahadi, Add.

Borrowers/Guarantor

Distt. Firozabad.

Shivdutt. Add.- H. No. 707B/1.

Sagar Enclave Colony, Shikohabad,

+ intt. & other expenses

Authorised Officer

New Delhi

ment's factual allegations.

months.

24.6 डि.से.

जनसत्ता, नई दिल्ली, 26 सितंबर, 2021 4

दिल्ली में छठा सीरो सर्वेक्षण होगा शुरू

हर वार्ड से लेंगे सौ-सौ नमूने

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 25 सितंबर।

कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए दिल्ली कितनी तैयार है इसके लिए दिल्ली सरकार ने शनिवार से सीरो सर्वेक्षण की शुरुआत की है। यह दिल्ली का छठा सिरो सर्वेक्षण होगा।

शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि इस सर्वेक्षण में दिल्ली भर से 28 हजार नम्ने लिए जाएंगे, जिसमें दिल्ली के हर वार्ड से लिए 100-100 नमूने लिए जाने हैं। इस जांच की रिपोर्ट दो सप्ताह बाद आएगी।

उन्होंने कहा कि भारत के कई राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई

'दिल्ली में नीतियां अब

यूपी से तय होती हैं '

साल 2016-17 में प्रदेश के निर्यात क्षेत्र में

यह जानकारी यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री

सिद्धार्थ नाथ सिंह ने दी। वह शनिवार को सेक्टर-

62 में हुए आजादी अमृत महोत्सव के दौरान

एक्सपोर्टस कॉनक्लेव को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें सोचती थी कि

उद्यमी एक प्रकार के एटीएम मशीन है। आप

हमारे साथी है और हम मिलकर उद्योगों को और

ज्यादा सुविधा देंगे। साल 2026-27 तक उत्तर

प्रदेश में निर्यात क्षेत्र को तीन लाख करोड़ रुपए

तक पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है।

साढ़े चार फीसद की गिरावट थी, जो करीब 80

हजार करोड़ रुपए से कम था, जबकि कोरोना काल में निर्यात क्षेत्र बढते हुए 1.81 लाख करोड

जनसत्ता संवाददाता

नोएडा, 25 सितंबर।

रुपए तक पहुंच गया।

दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकडों के मुताबिक, शनिवार को राजधानी में कोरोना संक्रमण के 27 नए मामले आए और संक्रमण से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। इस दौरान संक्रमण दर 0.04 फीसद रही। राजधानी में सात, 16 और 17 सितंबर को एक-एक मरीज की मौत हुई थी।

जा रही है। इन सबके बीच दिल्ली में फिर से सीरो सर्वे की शुरुआत हो गई है। सीरो सर्वे के इस चरण में दिल्ली नगर निगम, एनडीएमसी और छावनी बोर्ड के हर वार्ड से नम्ने लिए जाने हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली के 280 वार्ड से कुल 28 हज़ार नमूने लिए जाने हैं। नमूने लेने की प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पुरी की जाएगी। इसके एक हफ्ते बाद इसके नतीजे भी आ जाएंगे।

बता दें कि दिल्ली में अब तक 5 सीरो सर्वे कराए जा चुके हैं। सीरो सर्वे से यह अनुमान लगाने में आसानी होती है कि कितने प्रतिशत आबादी में कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बन चुकी है। इसी आधार पर सरकार अपनी आगे की रणनीति तय करती है और नए दिशा निर्देश बनाती है।

विशेषज्ञों की माने तो इस बार सीरो सर्वे में अधिकतर रिपोर्ट सकारात्मक आने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली में कोरोना मामलों की बात करें, तो 24 सितंबर को कोरोना के 24 मामले दर्ज किए गए और संक्रमण दर 0.03 फीसद थी। इसके अतिरिक्त लगातार हो रही मौतों के आंकड़े में भी दिल्ली में गिरावट दर्ज की गई है। लगातार कई दिन ऐसे रहे हैं जिसमें एक भी दिन बीमारी की वजह से मौत नहीं हुई है।

नोएडा प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में दी राहत

मकान और आवासीय भूखंड का हस्तांतरण शुल्क आधा

जनसत्ता सवाददाता नोएडा, 25 सितंबर।

नोएडा प्राधिकरण की शुक्रवार को हुई 203वीं बोर्ड बैठक में आवासीय भूखंड और फ्लैट समेत विभिन्न श्रेणी की परिसंपत्तियों के हस्तांतरण शल्क में कमी की गई। इसे पहले के मुकाबले आधा कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले लिए गए इस फैसले से शहर के प्रॉपर्टी कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है। कई आवासीय ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के पदाधिकारी लंबे समय से हस्तांतरण शुल्क को कम करने की मांग कर रहे थे। हस्तांतरण शुल्क के ज्यादा होने का

असर दोबारा बिक्री में आवासीय भूखंडों या फ्लैट की खरीद- फरोख्त पर पड रहा था। इस फैसले से शहर में फ्लैट, भूखंड, दुकान आदि संपत्ति खरीदना सस्ता हो सकता है।

नोएडा बोर्ड ने आवासीय ग्रुप हाउसिंग भुखंड व भवन के टीएम (हस्तांतरण) के लिए वर्तमान दर पांच फीसद को आधा कर 2.5 फीसद किए जाने को मंजूरी दी है। श्रमिक कुंज 12 हजार रुपए, ईडब्ल्यूएस व एलआईजी भवनों में वर्तमान दर का एक फीसद और अन्य श्रेणी के भवनों के हस्तांतरण वर्तमान दर का 2.5 फीसद लिया जाएगा। इससे पहले आवासीय भवनों की हस्तांतरण शुल्क की गणना काफी जटिल होती थी।

खबरों में शहर

डीयू : 26 नवंबर को होंगे डूटा के चुनाव

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 25 सितंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) के चुनाव आगामी 26 नवंबर को होने तय हुए हैं। चुनाव अधिकारी उज्ज्वल सिंह ने बताया कि हर दो साल पर होने वाले यह चुनाव इस साल कोरोना के कारण तीन महीने देरी से शुरू हो रहे हैं। चुनाव अधिकारी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सदस्यता प्राप्त करने की अंतिम तारीख 5 नवंबर है। इसके अलावा मतदाता सूची का प्रकाशन 12 नवंबर, परचा भरने की तारीख 17 व 18 नवंबर, नाम वापसी की अंतिम तारीख 19 नवंबर, उम्मीदवारों के नामों की अंतिम सूची 19 नवंबर, चुनाव की तारीख और समय 26 नवंबर है। वोटों की गिनती मतदान वाले दिन शाम से शुरू होगी और देर रात तक नतीजे भी आ सकते हैं। चुनाव का स्थान आर्ट्स बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ,नॉर्थ कैंपस में होगा। दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (डीटीए) के अध्यक्ष डॉ हंसराज सुमन ने बताया है कि डूटा का चुनाव अध्यक्ष के अलावा 15 कार्यकारिणी सीटों के लिए होता है। इन्हीं 15 कार्यकारिणी सदस्यों में से उपाध्यक्ष,सचिव ,सह सचिव और कोषाध्यक्ष चुने जाते हैं। डॉ हंसराज ने बताया कि इस बार चुनाव में डीटीए, भाजपा समर्थित एनडीटीएफ ,कांग्रेस समर्थित इंटेक व

शुल्क माफी की अपील जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 25 सितंबर।

दिल्ली के शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को पत्र लिखकर उससे 'कोरोना संक्रमण के आर्थिक प्रभावों ' के मद्देनजर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं का बोर्ड परीक्षा शुल्क माफ करने को कहा है। डीओई के निदेशक उदितप्रकाश राय ने कहा कि निदेशालय को कई अभिभावकों से अनुरोध मिल रहे हैं. जिसमें वे वर्तमान महामारी के चलते आय खत्म हो जाने के कारण परीक्षा शुल्क जमा करने

अन्य संगठन के मैदान में उतरने के आसार हैं।

डीओई ने की बोर्ड परीक्षा

परीक्षा शुल्क माफ करने का अनुरोध किया। राज्यमंत्री ने किया आइआइएमसी का दौरा

में असमर्थता जता रहे हैं। सरकारी विद्यालयों के

10वीं एवं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए केवल एक बार के उपाय के तौर पर 2021–22 के लिए

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 25 सितंबर।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री एल. मुरुगन ने शनिवार को भारतीय जन संचार संस्थान (आइआइएमसी) का दौरा किया। आइआइएमसी के महानिदेशक संजय द्विवेदी एवं अपर महानिदेशक के. सतीश नंबुदिरीपाड भी इस अवसर पर मौजूद थे। एल मुरुगन ने कहा कि अधिकतर लोग दीनदयाल जी को एक राजनीतिक चिंतक के रूप में जानते हैं, लेकिन वे देश में पत्रकारों एवं संपादकों के मार्गदर्शक थे और स्वयं भी एक दर्जन से अधिक पुस्तकों के लेखक थे। 'संवेदनहीनता के कारण दलितों का शोषण बढ़ा'

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 25 सितंबर।

दिल्ली कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों सरकारों की दलितों के प्रति संवेदनहीनता के कारण दलितों का शोषण हो रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने शनिवार को कहा कि दलितों के उत्थान के लिए इन दोनों ही पार्टियों ने कोई ठोस नीति नहीं बनाई है, जिससे यह पता चलता है कि दलितों के प्रति इनकी नियत साफ नहीं है। आंबेडकर भवन में दलित महापंचायत में उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को वेतन, महंगाई भत्ता, पेंशन

समय पर नहीं मिल रही। मंच का संचालन कांग्रेस उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक जय किशन ने किया।

गुजरात से दिल्ली आकर देते थे वारदात को अंजाम, आठ गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 25 सितंबर।

उत्तरी दिल्ली पुलिस ने गुजरात के छरारा गिरोह का खुलासा करते हुए लुट, डकैती जैसे मामलों में वारदात को अंजाम देने वाले आठ में दो कि दिल्ली पुलिस को डकैती के मामले के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने शातिर अपराधियों को दबोचने में सफलता प्राप्त की है। आरोपियों की जांच के बाद पलिस गिरोह के अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है।

राय के मताबिक सभी आरोपी गजरात के रहने वाले हैं। इनके नाम सतीश मचरेकर उर्फ गांजा, चंद्रकांत, गुरू कुमार, संकुल, अजय उर्फ अजुबा, सतीश परमार, विशाल उर्फ विन्नी व संजय बजरंगी उर्फ गट्ट है। यह इलाके में एक छरारा गिरोह के नाम से ख्यात है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कश्मीरी गेट इलाके में डेढ़ लाख और 15 लाख की लूट के अलावा शास्त्री पार्क इलाके में 10 लाख की लूट की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है।

उत्तरी जिला के अतिरिक्त उपायक्त अनिता राय ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में तलाश थी। गिरफ्तार किए गए अन्य लोग स्कटी और मोटरसाइकिल से झपटमारी, लूटपाट व चोरी की वारदात को अंजाम देते थे।

इन लोगों का मुख्य काम मार्केट में पैसा ला रहे लोगों पर नजर रखना होता था। यह गिरोह बाजार में उन दुकानों को अपना निशाना बनाता, जहां सोने का काम या हवाला के पैसों के लेनदेन का ज्यादा काम होता था। गिरोह के लोग वारदात को अंजाम देकर आराम से भाग जाते थे।

नौकरी दिलाने के नाम पर सैंकड़ों से ठगी, पांच धरे गए

जनसत्ता संवाददाता नोएडा, 25 सितंबर।

जनसत्ता सवाददाता

सम्मानित किया।

नई दिल्ली, 25 सितंबर।

थाना सेक्टर-20 पुलिस ने नौकरी लगवाने वाले गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया जबिक दो मौके से फरार हो गए।

आरोपी एक नामी जॉब पोर्टल 'शाइन डॉट कॉम' की साइट से ब्यौरा (डाटा) प्राप्त कर जरूरतमंद लोगों से संपर्क करते थे। फिर नौकरी लगवाने के नाम पर उनके साथ धोखाधडी कर ठगी करते थे। पुलिसिया पुछताछ में आरोपियों ने सैकडों लोगों के साथ ठगी की बात कबूल की है। पकड़े गए पांच आरोपी बहराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी लगवाने

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने

कहा कि एम्स को देश के बाकी संस्थानों के

लिए लाइटहउस की भूमिका निभानी चाहिए।

करने वाले संकाय सदस्यों व छात्रों को

समय में एम्स दिल्ली के संकाय सदस्यों व

दुसरे डॉक्टरों को देश के अन्य एम्स में भी

भेजा जाएगा। एक दूसरे संस्थान के साथ

इंटर्निशिप किया जाय। उन्होंने कहा कि एम्स

दिल्ली के अनुभव व योग्यता का फायदा दूसरे

एम्स जैसे संस्थानों को मिले इस दिशा में काम

किए जाने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा

कि नासा और दूसरे वैश्विक संगठनों में एक

तिहाई भारतीय मुल के लोग हैं। इतनी अधिक

योग्यता के साथ हम हो तो हम सोचें कि

बेहतरी के लिए और क्या किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य को

विकास से जोड़ कर काम किया है। हम

डॉक्टरों को चाहिए कि हम एम्स के लिए व

देश के लिए काम का लक्ष्य लेकर चलें। एम्स

निदेशक रणदीप गुलेरिया ने एम्स के योजना व

स्वास्थ्य मंत्री ने संकेत दिया कि आने वाले

के नाम पर ठगी करते हैं। आरोपियों की पहचान गाजियाबाद निवासी विशाल, मोहित व विजय, मेरठ निवासी साजिद और बागपत निवासी अक्षय के रूप में हुई है।

फरार आरोपी मेरठ निवासी आलोक सिरोही और बागपत निवासी परवेज खान हैं। पुलिस को मौके पर 13 डेस्कटॉप कंप्युटर, दो लैपटॉप, दो मोबाइल, 17 वॉकी टॉकी फोन, 17 सिम कार्ड, सात विभिन्न कंपनियों के डेबिट कार्ड और एक पीओएस मशीन को कब्जे में लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। पंजीकरण के लिए 1900 और दस्तावेज तैयार कराने के नाम पर 4500 रुपए वसुलते थे।

दूरबीन विधि से ही मरीज को मिली निजात

बिना चीरफाड़ के निकाला पेट का ट्यूमर

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 25 सितंबर।

राजधानी के एक अस्पताल में मरीज को बिना चीरफाड़ के पेट के अंदर पल रहे ट्यूमर से निजात मिल गई। यह ट्यमर अगर बाहर नहीं निकाला जाता तो कैंसर बन सकता था।

सर गंगाराम अस्पताल के गैस्ट्रोलाजी के डॉ अनिल अरोड़ा ने यह ट्यूमर गले से तार के जरिए दुरबीन डाल करके बाहर निकाल दिया।

इंडोस्कोपी विधि से किए गए इस इलाज से मरीज को न तो रक्तस्त्राव हुआ न ही कोई और परेशानी हुई। इस तरह के इलाज में मरीज को लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रखने की भी जरूरत नहीं होती।

डॉ अनिल अरोड़ा ने बताया कि 58 साल के इस पुरूष मरीज के पेट में दर्द था। जांच में पता चला कि पेट में ट्यूमर है जो 'डिस्पेलसिया' स्तर पर था यानी कुछ दिन में ही यह घातक कैंसर में बदल जाता, इसलिए इसे तुरंत निकालना जरूरी

था। उन्होंने बताया कि हमने सर्जरी की भी तैयारी रखी थी लेकिन इंडोस्कोपी से ही बिना चीरफाड किए हम इसे निकालने में सफल रहे।

छह घंटे में मरीज को बिना कष्ट के ट्यूमर से निजात मिल गई। डॉ अरोडा ने बताया कि उत्तराखंड के हल्ह्वानी से आए मरीज के ट्यूमर को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। भारत में पेट के कैंसर में केवल 5 फीसद मरीजों का ही पता लग पाता है, जबिक जापान में 30 फीसद पेट के कैंसर पहली स्टेज में पकड लिए जाते हैं।

अयोध्या की रामलीला: 130 फीट के मंच पर होगा मंचन

जनसत्ता संवाददाता नोएडा, 25 सितंबर।

कोरोनाकाल में अयोध्या की रामलीला इस बार इतिहास रचने को तैयार है। आयोजकों ने फैसला किया है कि छह से 15 अक्तूबर तक रात को सात से 10 बजे तक रामलीला का मंचन जन्मभमि लक्ष्मण किला सरय नदी के किनारे अयोध्या में होगा।

अयोध्या की रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सुभाष मलिक (बॉबी) ने शनिवार को सेक्टर-29 में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि करीब 50 करोड़ से ज्यादा लोग इस बार रामलीला का सीधा प्रसारण (लाइव) दुरदर्शन के माध्यम से देखेंगे। रामलीला का मंचन 130 फीट के मंच पर किया जाएगा, जबिक रावण का पुतला 110 फीट

फिल्मी सितारें निभाएंगे किरदार : रामलीला में सांसद मनोज तिवारी अंगद, रवि किशन परशुराम, राहुल बचर राम, बिंदु दारा सिंह हनुमान, शहबाज खान रावण और असरानी नारद मुनि

का बनाया जाएगा। कमेटी के उपाध्यक्ष गुलशन कुमार ने बताया कि अयोध्या की रामलीला भगवान श्री राम की रामलीला है। इसको घरों में बैठ कर देखें।

की भूमिका निभा रहे कैप्टन राज का मौका मिला है।

भगवान श्री राम के भक्त अपने हमारे लिए इससे बडी सौभाग्य

की बात और कोई नहीं है। भरत माथुर ने बताया कि, मैं इस वर्ष अयोध्या की रामलीला में भरत की भूमिका निभा रहा हुं। पिछले कई साल भी मैंने कई भूमिकाएं निभाई थीं, इस वर्ष भी मुझे भगवान श्री राम की रामलीला में काम करने

साथ ही मरीजों के इलाज में बेहतरी की दिशा में काम करने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) के 66वें स्थापना दिवस समारोह में बोल रहे 'अस्पतालों में सुरक्षाकर्मी और थे। उन्होंने एम्स में स्वचालित प्रयोगशाला और बाउंसर देख दुखी होता हूं' डिजिटल स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने संकेत दिया कि देश के अन्य एम्स के बीच संकाय सदस्यों व छात्रों का आदान-प्रदान होगा। उन्होंने उत्कृष्ट काम

एम्स के स्थापना दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री ने दिया संकेत

एम्स के डॉक्टर भी तबादले के

दायरे में आ सकते हैं

उन्होंने कहा कि केवल भर्ती कर इलाज करना ही जरूरी नहीं मरीज यहां की स्वच्छता, सलाह और व्यवहार से संतष्ट हो कर जाए। अस्पताल में आने वाले मरीज को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मैं अस्पताल में सुरक्षा गार्ड व बाउंसर देखता हूं तो दुख होता है क्योंकि जो मरीज अस्पताल आते हैं वे झगड़ा करने नहीं आते। वे यहां आते हैं इलाज कराने। जब उसमें कमी होती है तो वे नाराज होते हैं। हम उस कमी को दूर करें।

जांच से सुधरेगा इलाज

एम्स में शुरू हुई स्वचालित प्रयोगशाला में अब कैंसर, शगर लिपिड प्रोफाइल सहित तमाम तरह की जांच तेजी से हो सकेगी। पैथ लैब मेडिसिन के विभागाध्यक्ष सुब्रत सिन्हा ने कहा कि इस लैब से इमरजंसी व वार्ड मरीजों के जांच व इलाज में तेजी आएगी। इस लैब से जांच में और गहराई से मर्ज का पता लगाया जा सकेगा। तो इलाज और बेहतर होगा। इससे आरटीपीसीआर जैसी जांच की रपट भी एक घंटे में आ जाएगी।

परियोजनाओं पर रोशनी डाली। संजीव लालवानी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

हाल-ए-अस्पताल

सिफारिश से पंजीकरण और प्रोटोकॉल

दफ्तर से आपातकालीन सुनवाई की

व्यवस्था थी। लेकिन बीते कुछ समय से

यह व्यवस्था भी अघोषित रूप से खत्म कर

दी गई है। इसके पीछे दलाली और उगाही

को एक बड़ा कारण बताया जा रहा है।

एम्स में परेशान हाल मरीजों पर भारी आदेश

दलाली के कारण मानवीय मदद पर रोक

दक्षिणी रेलवे (निर्माण संगठन)

ई-निविदा सचना

No. SG-CNMTP-2021-2-MSB-AIP-SNT, तिथि 23.9.2021 एमएसबी-एआईपी 3रे एवं 4थे लाइन कार्य के सिलसिले में एमएसबी-एआईपी खंड में सिग्नलिंग

तथा दूरसंचार के शेष रहे कार्यों। अनुमानित नगदी मूल्यः रु. 195.92 लाख, ईएमडीः निल-- बोली प्रतिभूति उद्घोषणा जमा की जायेगी पूर्णता अवधिः 6 माह, निविदा बंद होने की तिथि एवं समयः 18.10.2021 के 14 बजे।

अधिक विवरणों के लिये वेबसाईट पताः www.ireps.gov.in देखें

कार्यपालक सिग्नल तथा दूरसंचार अभियंता, निर्माण तथा मेट्रोपॉलिटन परिवहन परियोजना, दक्षिणी रेलवे, चेन्नई-31



क्या कहते हैं डॉक्टर

त्वचा विभाग के एक डॉक्टर ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है। कि क्योंकि कर्मचारियों और दलालों ने हस्ताक्षर बेचने शुरू कर दिए थे। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीजों की सुविधा के लिए समय लेने की व्यवस्था की गई है। कोरोना में यह जरूरी भी है।

चुनौतियों से जुझना पड़ रहा है। यहां डॉक्टरों से इस विशेषाधिकार का उपयोग न कर्मचारियों व दलालों ने पंजीकरण करवाने करने को कहा है। यहां कर्मचारियों के के नाम पर आपातकालीन व्यवस्था को ही भ्रष्टाचार का मामला आरपी सेंटर में सामने हथिया लिया और इसके एवज में 1000 से आ चुका है। हड्डी रोग विभाग में दिखाने लेकर 2000 रुपए वसूल कर किसी भी आए मरीज अभिषेक के परिजन ने बताया कि हम जब डॉक्टर से लिखवाने गए तो मरीज का कार्ड बनावाकर उन्हें डॉक्टर से मिलवा देते थे। इसकी शिकायत जब एम्स उनके दफ्तर में पता चला कि प्रशासनिक प्रशासन को हुई तो उन्होंने अघोषित तौर दफ्तर से आए आदेश में डॉक्टरों को मना

वीआइपी मरीजों के लिए सेवा चालू : एम्स में बिना पूर्व पंजीकरण के परचा बनाने की सुविधा पूरी तरह खत्म कर दी गई है। ऐसे मरीजों की मदद कुछ डॉक्टर मानवता के आधार पर कर देते और उनके दस्तखत करने से बिना पंजीकरण के भी मरीज का कार्ड बन जाता था। मानवता के आधार पर गंभीर मरीजों की मदद के लिए एक रास्ता प्रोटोकाल दफ्तर से बनाया गया

कर दिया गया है कि वे मरीजों को दिखाने

के लिए पर्ची साइन नहीं करें।

था जहां मरीज की शारीरिक स्थिति व बीमारी की गंभीरता के आधार पर मदद हो पाती थी। लेकिन अब वह भी बंद कर दिया

पंजीकृत कार्यालय : 128, प्रथम तल, शिवा मार्केट, पीतमपुरा, उत्तरी दिल्ली-110034 वेबसाइट : www.grmrice.com | ई-मेल : grmrlcel@gmail.com दूरभाष नं. : 011-47330330 | फैक्स नं. : 011-(0180 - 2653673)

एतद्वारा कम्पनी के सदस्यों को सुचित किया जाता है कि तथा कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी

कोविड-19 के खतरे के कारण नवीनतम सामान्य परिपत्र सं. 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 (एमसीए परिपत्र) तथा उसके तहत निर्मित नियमों के साथ पठित समय–समय पर यथासंशोधित कम्पर्न (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धार एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो, एवं अन्य प्रयोज्य काननों तथा विनियमों के अनुसार, कम्पर्न पोस्टल बैलट सूचना दिनांक 23 सितम्बर, 2021 (पोस्टल बैलट सूचना) में निर्धारित विशेष प्रकार्य के परिप्रेक्ष्य में पोस्टल बैलट के माध्यम से अपने सदस्यों का अनमोदन ग्रहण करेगी। एमसीए परिपत्रों के संदर्भ में तथा कोविड-19 महामारी के खतरे के कारण कम्पनी पोस्टल बैलट सचन

जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड

सीआईएन : L74899DL1995PLC064007

पोस्टल बैलट सचना

किवल इलेक्टॉनिक प्रारूप में भेजेगी और सहमति अथवा असहमति का सम्पर्क भी केवल रिमोर्ट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से सम्पन्न होगा। कम्पनी ने पोस्टल बैलट सूचना केवल उन सदस्यों के पास भेजने का कार्य 25 सितम्बर, 2021 को

पुरा कर लिया है जिनके नाम एनएसडीएल तथा सीडीएसएल से प्राप्त के अनुसार सदस्यों के

रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं तथा जिनके ई-मेल पते (शुक्रवार), 24 सितम्बर, 2021 ('कट-ऑफ तिथि') तक कम्पनी के पास उपलब्ध हैं। कम्पनी केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलट सूचना में उल्लिखित मामलों पर सामान्य प्रस्तावों के माध्यम से सदस्यों की सहमति चाहती है। पोस्टल बैलट सचना की एक प्रति कम्पनी की वेबसाइट www.grmrice.com तथा स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट

www.bseindia.com जहां कम्पनी के शेयर सुचीबद्ध हैं, तथा एनएसडीएल की वेबसाइट

www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

कृपया ध्यान दें कि (i) यथासंशोधित संशोधित नियमों के नियम 20 एवं नियम 22 (ii) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 तथा (iii) एमसीए परिपत्रों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, 110 एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के अनुपालन मिं, कम्पनी ने पोस्टल बैलट प्रपत्र के बजाय अपने मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने में सक्षम करने के लिए अपने सदस्यों को केवल रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है। कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से तथा सुरक्षित ढंग से अपना मतदान करने में समर्थ करने हेतु सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं ग्रहण की हैं।

जिन सदस्यों के शेयर भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में हैं और जिनके ई-मेल पते पंजीकृत नहीं हैं, वे

अपने ई-मेल आईडी कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट/अपने संबंधित डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ पंजीकृत करा लें। भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने ई-मेल पते सदस्य(यों) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, अपने नाम, पूर्ण पते, फोलियो नम्बर, कम्पनी के साथ धारित शेयरों की संख्या की स्कैन्ड प्रति तथा पते के प्रमाण के रूप में पैन कार्ड, आधार कार्ड या किसी अन्य सरकारी दस्तावेज, जो कम्पनी के साथ पंजीकृत है, की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति यथाशीघ्र कम्पनी के पास Investor.grm@gmail.com पर ई-मेल द्वारा भेज दें ताकि वे पोस्टल बैलट सूचना प्राप्त कर सकें। जिन सदस्यों के शेयर डीमैट प्रारूप में हैं वे अपने ई-मेल पते अपने डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ अपडेट करा सकते हैं। पोस्टल बैलट सुचना में रिमोट ई-वोटिंग द्वारा सदस्यों को अपना मतदान करने की रीति से संबंधित समस्त निर्देश दिये गये हैं। मैसर्स देवेश अरोड़ा एण्ड एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से पोस्टल बैलट

प्रक्रिया संचालित करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग 26 सितम्बर, 2021 को 9.00 बजे पूर्वा. से प्रारम्भ होगी और 25 अक्टूबर, 2021 को 5.00 बजे अप. समाप्त होगी। 25 अक्टूबर, 2021 को 5.00 बजे अप. के उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जायेगी। यदि कोई सदस्य 25 अक्टूबर, 2021 को 5.00 बजे अप. के पश्चात रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करता है तो रिमोट ई–वोटिंग को वैध मत नहीं माना जायेगा और यह माना जायेगा कि सदस्य का कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है। पोस्टल बैलट के परिणाम मंगलवार, 26 अक्टूबर, 2021 को या इससे पूर्व घोषित किये जायेंगे।

एनएसडीएल की वेबसाइट पर परिणामों की घोषणा के तुरन्त बाद प्रदर्शित किया जायेगा। कम्पनी तित्काल ही इन परिणामों को स्टॉक एक्सचेंजों के पास भी अग्रसारित करेगी जहां कम्पनी के शेयर सचीबद्ध हैं। ई-वोटिंग से सम्बन्धित कोई पूछताछ या शिकायत के लिए एनएसडीएल से ई-मेल द्वारा evoting@nsdl.co.in पर अथवा दूरभाष : 1800 224430 या 1800 1020990 पर सम्पर्क करें।

सदस्य कम्पनी के पास Investor.grm@gmail.com पर भी लिख सकते हैं।

संवीक्षक की रिपोर्ट सहित उपर्युक्त परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.grmrice.com तथा

निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड

दिनांक : 23.09.2021 स्थान : नई दिल्ली

बलवीर सिंह (कम्पनी सचिव)

दूर गांव से इलाज के लिए आने वाले गंभीर बीमारियों के मरीजों को भारी

प्रतिभा शुक्ल

नई दिल्ली, 25 सितंबर।

www.readwhere.com